



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1979/माघ 13, 1900
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1979/MAGHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1979

सां०का०नि० 58(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 151/77-के०उ०शु०, तारीख 18 जून, 1977 को विधिविहित करती है।

[सं० 19/79-के०उ०शु०/फा०सं० 138/16/77-सी एक्स-4]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 2nd February 1979

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 151/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.

[No. 19/79-CE/F. No. 138/16/77-CX.4]

1159 GI/78

कन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०का०नि० 59(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ट्रांसफार्मरों और जनरेटरों को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	150 किलोवोल्ट एम्पियर और उससे अधिक रेटिंग के ट्रांसफार्मर	मूलानुसार दो प्रतिशत
2.	100 वोल्ट और उससे अधिक के जनरेटर	मूलानुसार ढाई प्रतिशत

2. यह अधिसूचना तारीख 31 दिसम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 20/79-के०उ०शु०/फा०सं० 138/16/77-सी एक्स-4]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 59 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Transformers and Generators, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the

(117)

duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description	Rate of duty
1	2	3
1.	Transformer of rating of 150 K.V.A. and above.	Two per cent ad valorem.
2.	Generator of 100 V and above.	Two and a half per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of 31st day of December, 1979.

[No. 20/79-CE/F. No. 138/16/77-CX.4]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 60(अ)---केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम 1(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाले 5 कि०वा० और उससे अधिक की विद्युत् मोटरों को, उस पर उद्ब्रह्णीय उत्पाद-शुल्क के उक्त भाग से [तत्समय प्रवृत्त उक्त नियमों के निबन्ध 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई किसी मृसंगत अधिसूचना के मातृ पठित] छूट देती है जितना मूलानुसार शुल्क के डेढ़ प्रतिशत के बराबर है।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 दिसम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 21/79-के०उ०शु०/फा० सं० 138/16/77-सी०एक्स-4]

एस० एन० बुसी, अवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 60 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Electric motors of 5 KW and above, falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon (read with any relevant notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the said Rules and in force for the time being) as is equivalent to one and a half per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of 31st day of December, 1979.

[No. 21/79-CE/F. No. 138/16/77-CX.4]

S. N. BUSI, Under Secy.

सीमा-शुल्क

सांकांनि० 61(अ)---केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 79-सी०शु० तारीख 18 जून, 1977 को विरुद्धित करती है।

[सं० 28/79-सी०शु०/फा० सं० 138/16/77-सी०एक्स-4]

जोसेफ डॉमिनिक, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 79-Customs, dated the 18th June, 1977.

[No. 28/79-Customs/F. No. 138/16/77-CX.4]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.